

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 787]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2024 — अग्रहायण 15, शक 1946

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

आदेश

क्रमांक एफ-36-1/तीन(एक)-2/पं.नि./रिट.आ.नि./2019/2474.— छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिसूचना क्रमांक/2563/22-1/2021/5502 दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 19(3) एवं 20 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 2 दिसम्बर, 2009 एवं दिनांक 26 दिसम्बर, 2009 को अधिक्रमित करते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-42 सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 20 एवं 21 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम नं. (2) में उल्लेखित पंचायतों के निर्वाचन के लिये कालम नं.(3) पदाभिहित अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग ऑफिसर(पंचायत) तथा कालम नं.(4) में पदाभिहित अधिकारियों में से आवश्यकतानुसार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर(पंचायत) नियुक्त करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) को प्राधिकृत करता है तथा यह निर्देश देता है कि रिटर्निंग ऑफिसर(पंचायत) तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर(पंचायत) को अधिकार क्षेत्र सारणी के कालम नं.(5) में उल्लेखित क्षेत्र होगा :-

सारणी

क्र.	पंचायत का नाम जिसमें प्रत्येक निर्वाचन से स्थान भरने के लिये निर्वाचन किया जा रहा है	अधिकारी का पदनाम जिसे रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) पदाभिहित किया गया है	अधिकारी का पदनाम जिसे सहायक रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) पदाभिहित किया गया है	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिला पंचायत	कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/अपर कलेक्टर	अपर कलेक्टर /संयुक्त कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/ सहायक कलेक्टर/ संयुक्त संचालक/(पंचायत एवं समाज सेवा) उप संचालक (पंचायत एवं समाज सेवा)/जिला आडिटर (पंचायत)/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)/जिला योजना अधिकारी/ अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन	सम्पूर्ण जिला

			अधिकारी (जिला पंचायत) / तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार/अधीक्षक, भू-अभिलेख/सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.	
2.	जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत	अपर कलेक्टर/अपर कलेक्टर (विकास)/संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/ डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार/ अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार/अधीक्षकभू-अभिलेख/सहायक अधीक्षक, भू- अभिलेख.	<p>(i) तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/अधीक्षक, भू-अभिलेख/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख</p> <p>(ii) मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)/परियोजना अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) / जिला अंकेक्षक (पंचायत)/ वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी/सहकारिता विस्तार अधिकारी / सहायक प्रबंधक (उद्योग) / पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक/विकास विस्तार अधिकारी/उपयंत्री (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण विभाग/लोक स्वा.यां.वि. /जल संसाधन विभाग/खाद्य निरीक्षक/मण्डल संयोजक (आदिम जाति कल्याण विभाग)/वन परिक्षेत्राधिकारी/अतिरिक्त सहायक विकास अधिकारी/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी)/सहायक सांख्यिकी अधिकारी</p> <p>(iii) अनुविभागीय अधिकारी/सहायक अभियन्ता (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/जल संसाधन विभाग / लोक निर्माण विभाग/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) / अनुविभागीय अधिकारी, वन विभाग/अनुविभागीय अधिकारी/सहायक संचालक, कृषि विभाग</p>	सम्पूर्ण खण्ड (अर्थात् जनपद पंचायत क्षेत्र)

हस्ता./—

(सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)
सचिव.